



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122024-259617
CG-DL-E-24122024-259617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5136]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946

No. 5136]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5551(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु' (पैन: AAALC0093M) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को, उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा केंद्र/राज्य/एनजएनजीओ या किसी अन्य सांविधिक निकाय से प्राप्त अनुदान/निधि;
- (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड की चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री, निपटान, नीलामी या अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजा;
- (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के स्वामित्व वाली पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकियों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए प्राप्त रॉयल्टी या कोई अन्य आय;

(घ) सरकारी कानूनों के तहत वसूले जाने वाले जुर्माने और शुल्क;

(ङ) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम (संशोधन), 2006 (2006 का 42) द्वारा यथा संशोधित केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का LXI) तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड नियमावली (संशोधित), 2015 द्वारा यथा संशोधित केंद्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्त शुल्कआय/प्रभार/; तथा

(च) बैंक जमा पर व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु' –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) उसकी गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024 से 2027-2028 तक संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025 से 2028-2029 तक के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 129 /2024 फा.सं. 300196/22/2024-आईटीए-1]

अश्वनि कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2024

S.O. 5551(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Silk Board, Bengaluru' (PAN: AAALC0093M), a Board constituted by the Central Government under the Central Silk Board Act, 1948, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

- (a) Grants/Funds received from the Centre/State/NGO or any other Statutory body by Central Silk Board;
- (b) Compensation received on account of sale, disposal, auction or acquisition of movable and immovable properties of Central Silk Board;
- (c) Royalty or any other income received for the technologies patented and intellectual property rights owned by the Central Silk Board;
- (d) Penalties and Levies collected under Government Statutes;
- (e) Fee/charges/receipt received on account of services rendered by Central Silk Board as per the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) as amended by the Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (42 of 2006) and the Central Silk Board Rules, 1955 as amended by the Central Silk Board (Amended) Rules, 2015; and
- (f) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Central Silk Board, Bengaluru-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year; and

- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for assessment years 2024-2025 to 2028-2029 relevant to financial years 2023-2024 to 2027-2028.

[Notification No. 129 /2024 F. No. 300196/22/2024-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.